



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

नं० 423]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 24, 1976/पौष 3, 1898

No. 423]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 24, 1976/PAUSA 3, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## CABINET SECRETARIAT

(Department of Personnel and Administrative Reforms)

### NOTIFICATIONS

New Delhi, the 24th December 1976

**G.S.R. 946(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with sub-rule (2), of rule 4 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Government of Uttar Pradesh hereby makes the following regulations further to amend the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, namely:—

1. (1) These regulations may be called the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) 25th Amendment Regulations, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, for the heading "Uttar Pradesh" and the entries occurring thereunder, the following shall be substituted, namely:—

#### "UTTAR PRADESH"

1. Senior posts under the State Govt.

Chief Secretary to Govt.

Chairman, Board of Revenue

229

1

1

Members, Board of Revenue	2
Members (Judicial), Board of Revenue	7
President and Member, Administrative, Tribunal and Chairman, Vigilance Commission	1
Commissioners of Divisions	12
Commissioners for Consolidation	1
Commissioners and Secretaries	14
Commissioner, Food and Civil Supplies and Commissioner and Secretary	1
Sales Tax Commissioner	1
Director, Administrative Training Institute	1
Commissioner and Director, Directorate of Industries	1
Settlement Commissioner	1
Commissioner and Project Administrator, Area Development	3
Secretaries/Special Secretaries to Govt.	21
Secretary to Governor	1
Secretary to Mukhya Mantri	1
Secretary, Board of Revenue	1
Additional/Joint/Deputy Secretaries to Govt.	52
States Editor, District Gazetteers	1
Excise Commissioner and Commissioner for Prohibition	1
Director, Planning Research and Action Division and Director Evaluation and Training Division-cum-Joint/Deputy Secretary to Govt.	1
Additional/Joint Directors of Industries	3
Controller of Weights and Measures and Joint/Deputy Secretary to Government	1
Labour Commissioner	1
Additional/Joint Labour Commissioner	1
Registrar, Cooperative Societies	1
Additional Registrars, Cooperative Societies	2
Cane Commissioner	1
Additional/Joint Sales Tax Commissioner	1
Additional Commissioners	2
Director of Panchayats	1
Chairman, and Member, Administrative Tribunal (II)	1
Director of Information and Secretary/Special Secretary/Joint Secretary/Deputy Secretary to Government	1
Director of Training and Employment	1
Director, Harijan and Social Welfare	1
Secretary, Public Service Commission	1
Deputy Commissioners/Magistrates and Collectors	57
Joint/Deputy Development Commissioners	5
Inspector General of Registration-cum-Chief Inspector of Stamps-cum-Joint Secretary, Board of Revenue	1
Deputy Land Reforms Commissioners	2
Joint/Deputy Director, National Savings-cum-Joint/Deputy Secretary to Govt.	1
Deputy Commissioners, Food and Civil Supplies-cum-Deputy Secretary to Government	2
Deputy Director, Local Bodies-cum-Deputy Secretary to Government	1
Additional/Joint Director of Consolidation	1
Secretary and Director, Institutional Finance	1
Director Bureau of Public Enterprises	1
Director for Scheduled Castes and Scheduled Tribes	1

Director of Tourism	1
Addl./Joint/Deputy Project Administrator, Area Development	3
Addl./Joint/Deputy Settlement Commissioner	1
Transport Commissioner	1
Regional Food Controllers	5
<b>Total</b>	<b>229</b>
2. Central Deputation Reserve at 40 per cent of 1 above	92
3. Posts to be filled by promotion and selection under rule 8 of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1964 at 25 per cent of 1 and 2 above	80
4. Posts to be filled by direct recruitment (1 and 2 minus 3 above)	241
5. Deputation Reserve at 20 per cent of 4 above	88*
6. Leave Reserve at 5 per cent of 4 above	12
7. Junior posts at 20.60 per cent of 4 above	50
8. Training Reserve at 10.59 per cent of 4 above	26
Direct Recruitment Posts	417
Promotion Posts	80
<b>Total Authorised Strength</b>	<b>497</b>
*Includes 40 posts in excess of 20 per cent	
1. Managing Director, U.P. Cement Corpn.	1
2. General Manager, U.P. Cement Corpn.	2
3. Managing Director, U.P. State Textile Corpn.	1
4. Housing Commissioner, U.P. Housing Development Board	1
5. General Manager, U.P. State Road Transport Corporation	1
6. Mukhya Nagar Adhikaris/Administrators, Nagar Mahapalikas	5
7. U.P. Mukhya Nagar Adhikaris/Deputy Administrators, Nagar Mahapalikas	2
8. Secretary, Development Authority	2
9. Managing Director, U.P. Financial Corporation	1
10. Managing Director, U.P. State Sugar Corporation	1
11. Chairman, U.P. Water Supply & Sewerage Corporation	1
12. Chairman/Managing Director, U.P. State Agro-Industrial Corporation	1
13. Managing Director, Pradeshiya Industrial and Investment Corporation	1
14. Additional/Joint Managing Director, Pradeshiya Industrial & Investment Corporation	1
15. Managing Director, U.P. State Industrial Development Corporation	1
16. Managing Director, U.P. State Small Industries Corporation	1
17. General Manager, U.P. State Industrial Development Corporation	1
18. Managing Director, U.P. State Export Corporation	1
19. Managing Director, U.P. State Food & Essential Commodities Corporation	1
20. Managing Director, U.P. State Cooperative Dairy Development Federation	1
21. Managing Director, U.P. State Spinning Mills	1
22. Chief Executive, New Okhla Industrial Development Authority	1
23. Administrator, Ghazlabad Improvement Trust	1
24. Managing Director, Provincial Cooperative Federation	1

25. Managing Director, U.P. State Mineral Development Corporation	1
26. Managing Director, U.P. State Handloom & Powerloom Development & Finance Corpn.	1
27. Managing Director, U.P. State Electronics Corporation	1
28. General Manager, U.P. Auto Tractors Ltd.	1
29. Deputy General Manager, U.P. Auto Tractors Ltd.	1
30. Managing Director, U.P. Hills Development Corpn.	1
31. Managing Director, U.P. State Tourism Corpn.	1
32. Managing Director, U.P. Chalchitra Nigam	1
33. Managing Director, U.P. Tarai Development Corporation	1

40

NOTE.—Prior to issue of this Notification the total authorised Strength of Uttar Pradesh was 403.

[No. 11031/38/76-AIS(II)-A]

### संश्लेषित सूचिकावली

### (कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

### अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 1976

सां. कां. निं. 946 (प्र).—भारतीय प्रशासन सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 के नियम 4 के उप नियम (2) के साथ पठित अखिल भारतीय सेवाएँ अधिनियम 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, "उत्तर प्रदेश" सरकार के परामर्श से, भारतीय प्रशासन सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) विनियम, 1955 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

- (1) इन विनियमों का नाम भारतीय प्रशासन सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) पञ्चीसवां संशोधन विनियम, 1976 है ।
- (2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।
2. भारतीय प्रशासन सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) विनियम, 1955 की अनुसूची में "उत्तर प्रदेश" शीर्षक तथा उसके अन्तर्गत दी गई प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

### "उत्तर प्रदेश"

### 1. राज्य सरकार के अधीन पद

सरकार के मुख्य सचिव	1
अध्यक्ष, राजस्व बोर्ड	1
अध्यक्ष, राजस्व बोर्ड	2

सदस्य (न्यायिक), राजस्व बोर्ड . . . . .	7
सभापति और सदस्य, प्रशासनिक अधिकरण और अध्यक्ष, सतर्कता आयोग . . . . .	1
खण्डों के आयुक्त . . . . .	12
आयुक्त चक्रवर्ती . . . . .	1
आयुक्त और सचिव . . . . .	14
आयुक्त खाद्य और सिविल पूर्ति और आयुक्त और सचिव . . . . .	1
आयुक्त विक्रय-कर . . . . .	1
निदेशक प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान . . . . .	1
आयुक्त बन्दोबस्त . . . . .	1
आयुक्त और निदेशक, औद्योगिक निदेशालय . . . . .	1
आयुक्त और परियोजना प्रशासक क्षेत्र विकास . . . . .	3
सरकार के सचिव/विशेष सचिव . . . . .	21
राज्यपाल के सचिव . . . . .	1
मुख्य मंत्री का सचिव . . . . .	1
सचिव, राजस्व बोर्ड . . . . .	1
सरकार के अपर/संयुक्त/उप सचिव . . . . .	52
राज्य सम्पादक, जिला गजेटियर . . . . .	1
आयुक्त उत्पाद और आयुक्त नशाबन्दी . . . . .	1
निदेशक योजना अनुसंधान और कार्यकारी खण्ड और निदेशक मूल्यांकन और प्रशिक्षण खण्ड तथा सरकार के संयुक्त/ उप सचिव . . . . .	1
अपर/संयुक्त निदेशक उद्योग . . . . .	3
नियंत्रक बाट, माप और सरकार के संयुक्त/उप सचिव . . . . .	1
श्रमायुक्त . . . . .	1
अपर/संयुक्त श्रम आयुक्त . . . . .	1
रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां . . . . .	1
अपर रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां . . . . .	2
गन्ना आयुक्त . . . . .	1
अपर/संयुक्त विक्रय कर आयुक्त . . . . .	1
अपर आयुक्त . . . . .	2
निदेशक पंचायत . . . . .	1
अध्यक्ष और सदस्य प्रशासनिक अधिकरण (II) . . . . .	1

निदेशक सूचना और सरकार के सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव . . . . .	1
निदेशक प्रशिक्षण और रोजगार . . . . .	1
निदेशक हरिजन और सामाजिक कल्याण . . . . .	1
सचिव, लोक सेवा आयोग . . . . .	1
उप आयुक्त/मैजिस्ट्रेट और कलक्टर . . . . .	57
संयुक्त/उप विकास आयुक्त . . . . .	5
महा निरीक्षक रजिस्ट्रीकरण तथा मुख्य निरीक्षक स्टाम्प तथा संयुक्त सचिव राजस्व बोर्ड . . . . .	1
उप भूमि सुधार आयुक्त . . . . .	2
संयुक्त/उप निदेशक राष्ट्रीय बचत तथा सरकार के संयुक्त/उप सचिव . . . . .	1
उप आयुक्त खाद्य और सिविल पूर्ति तथा सरकार के उपसचिव सचिव व निदेशक संस्थानीय वित्त . . . . .	2
निदेशक सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो . . . . .	1
उप निदेशक, स्थानीय निकाय तथा सरकार के उप सचिव . . . . .	1
अपर/संयुक्त निदेशक चक्रबन्दी . . . . .	1
परिवहन आयुक्त . . . . .	1
प्रादेशिक खाद्य नियंत्रक . . . . .	5
अपर/संयुक्त/उप-बन्दोबस्त आयुक्त . . . . .	1
निदेशक पर्यटन . . . . .	1
अपर/संयुक्त/उप-परियोजना प्रशासक-क्षेत्र-विकास . . . . .	3
निदेशक, अनुसूचित जाति तथा जन जाति . . . . .	1

---

229

---

2. केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व उपर्युक्त 1 के 40 प्रतिशत के हिसाब से . . . . . 92
3. भारतीय प्रशासन सेवा (भर्ती) नियम, 1954 के नियम 9 के अधीन पदोन्नति तथा प्रवरण द्वारा भरे जाने वाले पद उपर्युक्त 1 और 2 के 25 प्रतिशत के हिसाब से . . . . . 80
4. सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद उपर्युक्त 1 और 2 में 3 बराबर . . . . . 241

5.	प्रतिनियुक्ति रिजर्व	
	उपर्युक्त 4 के 20 प्रतिशत के हिसाब से	88*
6.	छुट्टी रिजर्व	
	उपर्युक्त 4 के 5 प्रतिशत के हिसाब से	12
7.	कनिष्ठ पद	
	उपर्युक्त 4 के 20.60 प्रतिशत के हिसाब से	50
8.	प्रशिक्षण रिजर्व	
	उपर्युक्त 4 के 10.59 प्रतिशत के हिसाब से	26
	सीधी भर्ती वाले पद	417
	पदोन्नति वाले पद	80
	कुल प्राधिकृत संख्या	497
1.	प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश सीमेंट निगम	1
2.	महा प्रबंधक, उत्तर प्रदेश सीमेंट निगम	2
3.	प्रबंधक निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम	1
4.	आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास विकास बोर्ड	1
5.	महा प्रबंधक, उत्तर प्रदेश राज्य रोड परिवहन निगम	1
6.	मुख्य नगर अधिकारी/प्रशासकों नगर महा पालिकायें	5
7.	मुख्य उप-मुख्य नगर अधिकारी/उप प्रशासक, नगर महा पालिकायें	2
8.	सचिव, विकास प्राधिकरण	2
9.	प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम	1
10.	प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम	1
11.	अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश जल पूति तथा मल व्यवस्था निगम	1
12.	अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य कृषि औद्योगिक निगम	1
13.	प्रबंध निदेशक, प्रदेशीय औद्योगिक तथा निवेश निगम	1
14.	अंतर/संयुक्त प्रबंध निदेशक, प्रदेशीय औद्योगिक तथा निवेश निगम	1
15.	प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम	1

\* 20 प्रतिशत के अतिरिक्त निम्नलिखित 40 पद शामिल हैं।

16. प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य लघु उद्योग निगम	1
17. महा प्रबंधक, उत्तर प्रदेश राज्य लघु उद्योग निगम	1
18. प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य निर्यात निगम	1
19. प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य तथा आवश्यक वस्तुएं निगम	1
20. प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी डेयरी विकास फेडरेशन	1
21. प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य कताई मिलें	1
22. मुख्य कार्यकारी न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण	1
23. प्रशासक, गाजियाबाद नगर सुधार मंडल	1
24. प्रबंध निदेशक, प्रान्तीय सहकारी संघ	1
25. प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम	1
26. प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य हैंड बुक तथा पावर लूम विकास तथा वित्त निगम	1
27. प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य इलेक्ट्रोनिक्स निगम	1
28. महा प्रबंधक, उत्तर प्रदेश आटो ट्रेक्टर्स लि०	1
29. उप महा प्रबंधक, उत्तर प्रदेश आटो ट्रेक्टर्स लि०	1
30. प्रबंधक निदेशक, उत्तर प्रदेश पर्वतीय विकास निगम	1
31. प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन निगम	1
32. प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल चक्र निगम	1
33. प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश तराई विकास निगम	1

जोड़

40

[सं० 11031/38/76-अ० भा० से० (II)-क]

**G.S.R. 947 (E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951) read with rule 11 of the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Government of Uttar Pradesh, hereby makes the following rules further to amend the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954, namely:—

1. (1) These rules may be called the Indian Administrative Service (Pay) 24th Amendment Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954,—

(a) In Schedule-III-A-Posts carrying pay above the time scale in the Indian Administrative Service under the State Governments in the Table, for the entry



"Uttar Pradesh" occurring in the first column and the corresponding entries in the second and third columns, the following shall be substituted, namely:—

**"UTTAR PRADESH"**

**Uttar Pradesh**

Chief Secretary to Government	Rs. 3500
Chairman, Board of Revenue	Rs. 3000
Members, Board of Revenue	Rs. 3000
Members (Judicial) Board of Revenue	Rs. 2500-125/2-2750
President and Member, Administrative Tribunal and Chairman, Vigilance Commission	Rs. 2500-125/2-2750
Commissioners of Divisions	Rs. 2500-125/2-2750
Commissioner for consolidation	Rs. 2500-125/2-2750
Commissioners and Secretaries	Rs. 2500-125/2-2750
Commissioner, Food and Civil Supplies and Commissioner and Secretary	Rs. 2500-125/2-2750
Sales Tax Commissioner	Rs. 2500-125/2-2750
Director, Administrative Training Institute	Rs. 2500-125/2-2750
Commissioner and Director, Directorate of Industries	Rs. 2500-125/2-2750
Settlement Commissioner	Rs. 2500-125/2-2750
Commissioner & Project Administrator, Area Development	Rs. 2500-125/2-2750

(b) In 'Schedule III-B-Posts carrying pay in the senior scale of the Indian Administrative Service under the State Governments (including posts carrying special pay in addition to pay in the time scale)', in the Table for the entry "Uttar Pradesh" occurring in the first column and the corresponding entries in the second column, the following shall be substituted, namely:—

**"UTTAR PRADESH"**

Secretaries/Special Secretaries to Govt.
Secretary to Governor
Secretary to Mukhya Mantri
Secretary, Board of Revenue
Additional/Joint/Deputy Secretaries to Govt.
States Editor, District Gazetteers
Excise Commissioner and Commissioner for Prohibition
Director, Planning Research and Action Division and Director Evaluation and Training Division-cum-Joint/Deputy Secretary to Government
Additional/Joint Directors of Industries
Controller of Weights and measures and Joint/Deputy Secretary to Government
Labour Commissioner
Additional/Joint Labour Commissioner
Registrar, Cooperative Societies
Additional Registrars, Cooperative Societies
Cane Commissioner
Additional/Joint Sales Tax Commissioner
Additional Commissioners
Director of Panchayats
Chairman and Member, Administrative Tribunal (II)
Director of Information and Secretary/Special Secretary/Joint Secretary/Deputy Secretary to Government
Director of Training and Employment
Director, Harijan and Social Welfare
Secretary, Public Service Commission

Deputy Commissioners/Magistrates and Collectors  
 Joint/Deputy Development Commissioners  
 Inspector General of Registration-cum-Chief Inspector of Stamps-cum-Joint Secretary, Board of Revenue  
 Deputy Land Reforms Commissioners  
 Joint/Deputy Director, National Savings-cum-Joint/Deputy Secretary to Government  
 Deputy Commissioners, Food and Civil Supplies-cum-Deputy Secretary to Government  
 Deputy Director, Local Bodies-cum-Deputy Secretary to Government  
 Additional/Joint Director of Consolidation  
 Secretary and Director, Institutional Finance  
 Director Bureau of Public Enterprises  
 Director for Scheduled Castes and Scheduled Tribes  
 Director of Tourism  
 Additional/Joint/Deputy Project Administrator, Area Development  
 Additional/Joint/Deputy Settlement Commissioner  
 Regional Food Controllers  
 Transport Commissioner

[No. I1031/38/76-AIS(II)-B]

Y. K. CHERIAN, Desk Officer.

सां. का. नि. 947 (प्र).—भारतीय प्रशासन सेवा (वैतन) नियम, 1954 के नियम 11 के साथ पठित अधिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार के परामर्श से, भारतीय प्रशासन सेवा (वैतन) नियम, 1954 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम एतद्वारा बताती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम भारतीय प्रशासन सेवा (वैतन) चौबीसवां संशोधन नियम, 1976 है।

[(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय प्रशासन सेवा (वैतन) नियम, 1954 की अनुसूची 111-क में:—

(क) राज्य सरकार के अधीन भारतीय प्रशासन सेवा के वरिष्ठ वैतनमान से ऊपर वैतन वाले पद सारणी में, "उत्तर प्रदेश" के सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएँगी, अर्थात्:—

### "उत्तर प्रदेश"

"उत्तर प्रदेश— सरकार के मुख्य सचिव	3,500
अध्यक्ष, राजस्व बोर्ड	3,000
सदस्य, राजस्व बोर्ड	3,000
सदस्य (न्यायिक), राजस्व बोर्ड	2500—125/2—2750
सभापति और सदस्य, प्रशासनिक	2500—125/2—2750
अधिकरण और अध्यक्ष,	
सतर्कता आयोग	
खपों के आयुक्त	2500—125/2—2750

आयुक्त चलाबन्दी	2500—125/2—2750
आयुक्त और सचिव	2500—125/2—2750
आयुक्त खाद्य और विविध वृत्ति और	2500—125/2—2750
आयुक्त और सचिव	
आयुक्त विक्रय-कर	2500—125/2—2750
निदेशक प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान	2500—125/2—2750
आयुक्त बन्दोबस्त	2500—125/2—2750
आयुक्त और निदेशक, औद्योगिक निदेशालय	2500—125/2—2750
आयुक्त और परियोजना प्रशासक क्षेत्र विकास	2500—125/2—2750

(ब) “अनुसूची 3-ख-राज्य प्रकार के अखिल भारतीय प्रशासन सेवा के वरिष्ठ वेतनमान में वेतन पद जिनके अन्तर्गत समय वेतनमान के अतिरिक्त विशेष वेतन वाले पद भी हैं” तालिका में, “उत्तर प्रदेश” के सामने द्वितीय स्तम्भ में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ प्रस्थापित की जाएँगी, अर्थात् :—

#### “उत्तर प्रदेश”

“उत्तर प्रदेश—सरकार के मुख्य/उप सचिव”

राज्यपाल के सचिव

मुख्य मंत्री का सचिव

सचिव, राजस्व बोर्ड

सरकार के अपर/अधुक्त/उप सचिव

राज्य सम्पादन, जिला मजदूरियर

आयुक्त उत्पाद और आयुक्त नशाबन्दी

निदेशक योजना अनुसन्धान और कार्यकारी खण्ड और

निदेशक मूल्यांकन और प्रशिक्षण खण्ड तथा सरकार

के संयुक्त/उप सचिव

अपर/अधुक्त निदेशक उद्योग

नियंत्रण बाट, गांव और सरकार के संयुक्त / उप सचिव

श्रमायुक्त

अपर/अधुक्त श्रम आयुक्त

रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ

अपर रजिस्ट्रार, सरकारी समितियाँ

गन्त आयुक्त

अपर/संयुक्त विक्रय कर आयुक्त  
 अपर आयुक्त  
 निदेशक पंचायत  
 अध्यक्ष और सदस्य प्रशासनिक अधिकरण (II)  
 निदेशक मुचना और सरकार के सचिव/विशेष सचिव  
 संयुक्त सचिव/उप सचिव  
 निदेशक प्रशिक्षण और रोजगार  
 निदेशक हरिजन और सामाजिक कल्याण  
 सचिव, लोक सेवा आयोग  
 उप आयुक्त/ मैजिस्ट्रेट और कलक्टर  
 संयुक्त/उप विकास आयुक्त  
 महा निरीक्षक रजिस्ट्रीकरण तथा मुख्य निरीक्षक  
 स्टाम्प तथा संयुक्त सचिव राजस्व बोर्ड  
 उप भूमि सुधार आयुक्त  
 संयुक्त/उप निदेशक राष्ट्रीय बचत तथा सरकार  
 के संयुक्त/उप सचिव  
 उप आयुक्त खाद्य और सिविल पूर्ति तथा सरकार  
 के उप सचिव  
 सचिव व निदेशक, संस्थानियम वित्त  
 निदेशक सार्वजनिक उत्तम व्यरो  
 उप निदेशक, स्थानीय निकाय तथा सरकार के उप सचिव  
 अपर/संयुक्त निदेशक चक्रवन्दी  
 परिवहन आयुक्त  
 प्रादेशिक खाद्य नियन्त्रक  
 अपर/संयुक्त/उप-बन्दोबस्त आयुक्त  
 निदेशक, अनुसूचित जाति तथा जन जाति  
 निदेशक, पर्यटन  
 अपर/संयुक्त/उप-परियोजना प्रशासक-क्षेत्र विकास

[स० 11031/38/76-ए० आई० एस०-II(ख)]

वा० के० चैरियन, डैस्क अधिकारी ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मद्रासालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा  
 निबंधक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1976

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,  
 NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976